

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक ०२ ^{जनवरी} दिसम्बर, 2018

विषय- राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढांचे में सृजित लेखा संवर्ग एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर संवर्ग के पद के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-666/2-53(2006)/रा0यो0आ0/2007, दिनांक 10 जून, 2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-218/XXVII(7) 50(16)/2014टी0सी0, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग में कार्यरत सहायक लेखाकार के अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/- को वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/- में एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/- को वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/- में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने तथा लेखाकार/कोषाध्यक्ष पद का पदनाम लेखा संवर्ग के अनुसार लेखाकार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- वेतन उच्चीकरण के फलस्वरूप संबंधित पदधारक का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28.12.2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के सुसंगत नियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3- सुसंगत सेवा नियमावली में उक्तवत संशोधन की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कर ली जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-870/XXVII(7)/2017, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय


(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- ०२ /XXVI/एक(10)/2011- तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव